



# SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works :

CIN : L26942OR1991PLC002865

Vill. : Barpali, P.O. : Kesramal, Rajgangpur, Dist. : Sundargarh, Odisha, India, PIN : 770017

Tel : +91-94370 49074, e-mail : info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com

www.surajproducts.com

Dated: June 12, 2021

The Secretary  
Bombay Stock Exchange Limited  
(Department of Corporate Services)  
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street  
Mumbai – 400001

Dear Sir,

**Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English & Hindi Newspaper) published on June 12, 2021 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on June 12, 2021 regarding publication of intimation about rescheduling of Board Meeting to held on Wednesday the 23<sup>rd</sup> day of June, 2021 to consider and approve the Standalone Audited Financial Results of the Company, for the quarter & year ended March 31, 2021. Copy of newspaper cuttings in this connection are attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully  
For Suraj Products Limited

A.N. Khatua  
Company Secretary



Encl. as above

Copy to:

The Secretary  
The Calcutta Stock Exchange Limited  
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

**West Bengal University of Animal and Fishery Sciences**  
68, Khudiram Bose Sarani, Kolkata - 700037

**Tender**  
Open tenders are invited for  
1. Empanment of Annual Rate Contract of Chemical & Regent, Glassware and plastic wares.  
2. Purchase of sanitizing items.  
3. Supply of instruments under DST Project under WBIFS.  
For details visit at [www.wbuafl.ac.in](http://www.wbuafl.ac.in)  
Registrar

**Midnapore Municipality**  
Midnapore Municipality invite application from suitable candidates for the posts:  
**Health Officer (Contractual) - No of Post - 1 Nos. Age Limit 62 Years as on 01.01.2020. Last Date of Application - 22.06.2021. Honorarium Rs. 62000/-**  
For details information and application process visit Midnapore Municipality Website [www.midnaporemunicipality.com](http://www.midnaporemunicipality.com) & [www.sudawb.org](http://www.sudawb.org)  
Administrator  
Midnapore Municipality

**SURAJ PRODUCTS LIMITED**  
CIN:L28942OR1991PLC002865  
Regd. Off: Vill: Barpali, P.O.: Kesaramai, Rajnagar, Dist. Sundargarh, Odisha 750017

**INTIMATION FOR RESCHEDULING OF BOARD MEETING**  
This has reference to our notice dated June 03, 2021 intimating that a meeting of the Board of Directors of Suraj Products Limited (the Company) to be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and take on record the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 has been rescheduled and the said meeting will now be held on Wednesday, June 23, 2021.  
The meeting is rescheduled due to professional constraints of our Statutory Auditor M/S BDS & Co.  
By order of the Board  
A.N.Khatua  
Company Secretary

**MSG TIGER SOLUTIONS LLP**  
Registered Office Address: Sico Global Tower, Block CN, Sub No. 801D, 8th Floor Sector V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West Bengal (India)  
LLPIN: ANKJ17  
FORN No. UR.2

**Advertisement giving notice about registration of Part of Chapter XXI of the Act (Pursuant to section 77(A) of the Companies Act, 2013 and rule 41) of the companies (Authorised by Registrar, 2014)**  
1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 76 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hence and before the expiry of thirty days hereafter to the Registrar at Kolkata that MSG Tiger Solutions LLP a LLP may be registered under Part of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.  
2. The principal objects of the company are as follows:  
To carry on the business of information technology based services including business process outsourcing, Knowledge Process Outsourcing, Online marketing, digital communication and related services to customers in India and elsewhere on web development, troubleshooting, Software designing, Software development, web software engineering, digital services and other computer related activities.  
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office of Statutory Global Tower, Block CN-80, Sub No. 801D, 8th Floor, Sector V, Salt Lake City, Kolkata-700091, West Bengal (India).  
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, Sector 5, IIT, Maitopara, District Gurgaon (Haryana), Pin. Code: 122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.  
For MSG TIGER SOLUTIONS LLP  
Sd/-  
NAVNEET MAKHARIA  
(DIN: 05490241)

**BLUE CHIP INDIA LIMITED**  
Regd. Office: 10 Primop Street, 5th Floor, Kolkata - 700027  
Email: [info@bluechipindia.net](mailto:info@bluechipindia.net)  
[bluechipindia@gmail.com](mailto:bluechipindia@gmail.com)  
W: [www.bluechipindia.net](http://www.bluechipindia.net)  
Ph: 91-33-402 2880, Fax: 91-33-22793053  
CIN:L05919WB1992CO00597

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 28th June, 2021 at 11.00 A.M. inter alia, consider and approve audited financial results for Quarter and year ended on 31st March 2021.  
The Notice is also available on the Company's website at [www.bluechipindia.net](http://www.bluechipindia.net) and on the Stock Exchanges website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).  
Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
By order of the Board  
For Blue Chip India Limited  
Sd/- Anurita Mishra Thakur  
Date: 11.06.2021 Company Secretary & Compliance Officer  
Place: Kolkata

**ROUTE MOBILE LIMITED**  
CIN: U72900MH2004PLC146233  
Registered Office: 4 Dimension, 3rd Floor, Mini Space, Malad (West), Mumbai - 400004  
The 022-4333 7676; Fax: 022-4333 7659  
Website: [www.routeindia.com](http://www.routeindia.com) Email: [investor@routeindia.com](mailto:investor@routeindia.com)

**GENERAL COMMUNICATION ON TAX DEDUCTION AT SOURCE ON DIVIDEND**  
The Board of Directors of the Company in its meeting held on May 18, 2021 has recommended a dividend of ₹ 2/- per equity share (20%) having a nominal value of ₹ 10/- each for the Financial Year ended March 31, 2021. The said dividend will be payable post approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company. Pursuant to the Finance Act, 2020, with effect from April 1, 2020, Dividend Distribution Tax has been abolished and dividend income is taxable in the hands of the shareholders. The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents/declarations to the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("RTA/KFinTech") to enable the Company in applying the appropriate TDS on Dividend payment. In this regard, a General Communication on Tax Deduction at Source on Dividend was sent by e-mail on June 9, 2021 to all the shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company (Depositories (DP)). The same has been uploaded on the Company's website for benefit of the shareholders whose e-mail address was not registered with Company DP and such shareholders are requested to visit Company's website <https://routeindia.com/wp-content/uploads/2021/06/General-Communication-on-Tax-Deduction-at-Source-on-Dividend.pdf> to make the necessary disclosures, as per applicability.  
You may further write to the Company on [investors@routeindia.com](mailto:investors@routeindia.com) or KFinTech on [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com) for any further clarification/assurances.  
For Route Mobile Limited  
Sd/-  
Rathindra Das  
Date: June 12, 2021  
Place: Mumbai  
Head Legal, Company Secretary and Compliance Officer

**Brigade Enterprises Limited**  
Corporate Identity Number: (CIN): L810K1A1995PLC019726  
Regd. Off: 29th & 30th Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Moulleswarom-Rajajinagar, Bangalore - 560 055  
Phone: 080 4157 9200  
Email: [investors@brigadegroup.com](mailto:investors@brigadegroup.com)  
Website: [www.brigadegroup.com](http://www.brigadegroup.com)

**Notice**  
**Sub: Notice to Equity Shareholders for transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund**  
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and amendments thereto to the Equity Shareholders regarding transfer of the equity shares of the Company relating to unclaimed dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF).  
As per section 125 of the Companies Act, 2013 and above mentioned Rules, all the shares in respect of which dividend has not been claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. In respect of the final dividend declared for the financial year 2019-20, the due date for the transfer of shares as per the Act and Rules will be on or before 9th October, 2021. The corresponding shares relating to such unclaimed dividend will also be transferred in accordance with the procedure laid out in the IEPF Rules.  
The Company has sent individual communication to the shareholders concerned whose shares are likely to be transferred to IEPF for taking appropriate steps to claim the dividend. The Company has also uploaded full details of such shareholders on its website [www.brigadegroup.com](http://www.brigadegroup.com).  
The shares relating to unclaimed dividend for a consecutive period of seven years shall:  
• In case of shares held in demat mode will be transferred directly to the IEPF demat account maintained with National Securities Depository Limited (NSDL).  
• In case of shares held in physical form, if any, the original share certificate stands cancelled as new share certificates will be issued for transfer of such shares to IEPF demat account maintained with NSDL.  
In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 31st August, 2021, the Company will transfer the unclaimed dividend to IEPF by 9th October, 2021 in accordance with IEPF Rules. The corresponding shares will also be transferred without any further notice to the Shareholders.  
The shareholders can only claim their unclaimed dividend and equity shares from IEPF authority in accordance with IEPF Rules once the unclaimed dividend and equity shares are transferred by the Company as mentioned above. Kindly note that no claim shall be made against the Company for the same. Shareholders who have any queries on the above are requested to contact M/s KFin Technologies Private Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company at the following address:  
**Unit: Brigade Enterprises Limited**  
Karvy Sentinum Tower B, Plot no: 31 & 32, Financial District Nonankramuguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032  
Ph No.: 91 40 6716 1500, Fax No.: 040 23420814  
Email: [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com)  
Bangalore  
9th June, 2021  
Sd/-  
P. Om Prakash  
Company Secretary & Compliance Officer

**पंजाब नेशनल बैंक**  
Punjab National Bank  
General Services Administration Department, Zonal Office, Kolkata United Tower, 4th Floor, 11, Hembata Basu Sarani, Kolkata - 700 011  
e-mail: [zokolkata@pnbi.in](mailto:zokolkata@pnbi.in)

**NOTICE OF MEETING OF THE CREDITORS OF INSILCO LIMITED**  
Notice is hereby given that:  
1. The creditors meeting of INSILCO LIMITED ("Company") will be held on Tuesday, June 29, 2021 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the notice of the meeting. The meeting shall be held without the physical presence of the Creditors at a convenient venue.  
2. The cut-off date for determining the creditors eligible to attend the meeting and vote on the resolutions proposed is considered as the date of the meeting is June 7, 2021.  
3. The notice of the meeting and its explanatory statement to the creditors has been sent at the e-mail id / address as available with the Company.  
4. The notice of the meeting is also available on the website of the Company at [www.insilcoindia.com](http://www.insilcoindia.com) and the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) as well as on the website of NSDL at [www.neddl.com](http://www.neddl.com).  
5. In case of any queries, creditors may also write to the Company Secretary at the Company's email address [info@insilcoindia.com](mailto:info@insilcoindia.com).  
Date: 11th June 2021 For Insilco Limited  
Place: New Delhi Sd/-  
Swati Sarthakia  
(Company Secretary & Compliance Officer)

**OFFICE OF THE RAINNAGAR-1 DEVELOPMENT BLOCK, GOALS, MURSHIDABAD**  
**NOTICE INVITING TENDER**  
(vide Memo No: 1717(46)/MDM/EN, dated: 10.06.2021)  
Tender are hereby invited by The Block Development Officer, Rainnagar-1 Dev. Block, Goals, Murshidabad from the eligible distributor/carrying contractors of food and supply department, Govt. of West Bengal for engaged as carrying-out-distribution agent of cooked Mid-Day-Meal in the jurisdiction of Rainnagar-1 Dev. Block in Murshidabad District.  
Sl No. Particulars Date  
1. Last date and time of the application Upto 4:00 PM on 21.06.2021  
2. Date and time of opening of the application and scrutiny of papers At 3:00 PM on 25.06.2021  
For other details please contact with Mid Day-Meal Section of Rainnagar-1 Dev. Block, Contact No. 03481-293070, Email: [info-rainnagar1@murshidabad.gov.in](mailto:info-rainnagar1@murshidabad.gov.in)  
Sd/-  
Block Development Officer  
Rainnagar-1 Development Block  
Goals, Murshidabad

**PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO PROVISION OF CLAUSE (iv), (v), (vi) AND (ix) OF ANNEXURE A TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIRP/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016**  
FROM  
Ankur Aggarwal S/o Pawan Kumar Aggarwal Resident of H.No. 81, Sector 4 Panchkula (Haryana) 134112 and Smt. Satya Aggarwal W/o Pawan Kumar Aggarwal Resident of H.No. 81, Sector 4 Panchkula (Haryana) 134112  
Ankur Aggarwal and Satya Aggarwal are promoter(s) of IDMA Laboratories Limited ("LL"). LL was listed on the Deth Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, Ludhiana Stock Exchange and Jagpur Stock Exchange Limited which has been de-recognised by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Consequently, LL has been moved to the Dissemination Board ("DB") of the BSE Limited ("BSE"). IDMA Laboratories Limited was originally incorporated as a Private Limited Company under the Companies Act, 1956 under the name and style IDMA Laboratories Private Limited vide Certificate of Incorporation dated September 15, 1984. Later, the company was converted into Public Limited Company vide fresh certificate of incorporation dated May 29, 1995. Presently, company is engaged in the business of testing laboratories.  
Financial and Other Information of LL:  
i. Name of the Company: IDMA Laboratories Limited (CIN: U5231HR1984PLC019111)  
ii. Registered Office: 391, Industrial Area, Phase 1, Panchkula (Haryana) 134 113. Ph.No. 0172-5064827, 830 E-Mail: [accounts@idmagroup.co](mailto:accounts@idmagroup.co).  
iii. Shareholding: As on March 31, 2021, the paid up equity share capital of LL was Rs. 293.57 Lakh comprising of 29,35,716 equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each fully paid up. Out of the total 29,35,716 equity shares issued by LL, 1250647 equity shares representing 42.60% are held by the Promoters, Ankur Aggarwal and Satya Aggarwal holds 1,57,500 representing 5.36% and 5,71,147 equity shares representing 19.46% respectively in LL and balance 16,65,069 equity shares representing 57.40% are held by public shareholders. As on March 31, 2021, LL had 269 Public shareholder holder.  
iv. Summary Financials: As per its Audited Financial Statements for the last three years, LL's Net Worth and Net Profit/Loss after tax was as follows:  
(Rs. In Lakh)  
Particulars 31.03.2018 (Audited) 31.03.2019 (Audited) 31.03.2020 (Audited)  
Paid up equity share Capital 330.56 293.57 293.57  
Net worth 544.99 555.37 569.64  
Net Profit/Loss after Tax 10.02 10.37 14.27

The SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIRP/2016/110 dated October 10, 2016 ("SEBI Circular"), has stipulated the procedure and process for exit of Exclusively Listed Companies ("ELC") from the DB. As provided in Clause (i) of Annexure A of the SEBI Circular, LL and its Promoters on March 25, 2021 have appointed M/s D & A Financial Services (P) Limited, a category I Merchant Banker as an Independent Valuer from BSE's panel of expert valuers. The said Independent Valuer after taking into consideration the applicable valuation methodology, has issued its Valuation Report dated June 02, 2021 and has determined the fair value of an equity share of LL as Rs. 14.33 per share. The Valuation Report will be available for inspection at Registered Office of LL during office hours for a period of ten days from the date of this Public Announcement.  
We are therefore making Exit offer to acquire the shares of the Company from the Public Shareholders at a price of Rs. 14.50 per Equity Share ("Exit Offer Price"), the value being more than determined by the Merchant Banker as stated above. The offer letter along with Blank Transfer Deed is being dispatched to only those public shareholders whose names appear on the register of the Shareholders of the Company on June 18, 2021 ("Specified Date").  
According to Offer, you may tender your shares at the Exit offer price along with valid Share Transfer Deed to the address of the Registrar to the Exit offer, as mentioned below:

**Beetal Financial & Computer Services Pvt. Limited**  
Beetal House, 3rd Floor, 93, Madanpur, Near Dada Harak Das Mandir, New Delhi-110062  
E. Mail: [beetalita@gmail.com](mailto:beetalita@gmail.com)  
Tel. Nos.: 29961281-82, Fax No.: 29961284  
Contact Person: Mr. Punit Mittal

The exit offer shall open on **Monday, 21 June 2021** and will close on **Friday, 02 July 2021**. During the tendering period Public Shareholders can tender shares as prescribed above.  
The shareholders who could not tender their shares within the above mentioned Offer Period, have right to tender the shares up to a period of one year from the date of completion of offer at the same price of Rs. 14.50 per share as determined by the D & A Financial Services Private Limited. The Promoters of LL hereby declare that they undertake the liability to acquire such shares.  
Sd/- Sd/-  
Ankur Aggarwal Satya Aggarwal  
(Acquirer) (Acquirer)  
Date: June 11, 2021  
Place: New Delhi

**INSILCO LIMITED**  
A Member of Exotic Industries Group  
CIN: L04203RJ1989PLC019141  
Regd. Office: A-5, SPDC Industrial Area, Bhatnagar  
CIN: L04203RJ1989PLC019141  
Ph: 0681923883, Fax: (06824) 252348  
Email: [info@insilcoindia.com](mailto:info@insilcoindia.com)  
Website: [www.insilcoindia.com](http://www.insilcoindia.com)

**NOTICE**  
**NOTICE COM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION OF SBI MUTUAL FUND**  
**Appointment of Key Personnel of SBI Funds Management Private Limited**  
Notice is hereby given that Mr. Rohan Pillai, Fixed Income Dealer, has been appointed as key personnel of SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) (based at Corporate Office). The details of Mr. Rohan Pillai are as follows:  

Name / Designation	Age	Qualification	Brief Experience
Mr. Rohan Pillai (Fixed Income Dealer)	29 years	• Master of Science in Finance • Bachelor of Engineering	Mr. Rohan Pillai joined SBIFMPL in June 2021. He has over 4 years of experience in finance and service sector. Prior to joining SBIFMPL, he was previously associated with following entities. ICICI Bank Limited (24th May 2017 – 28th May, 2021) – Primarily involved in credit analysis of various NCD proposals. Jain Irrigation Systems Limited (1st February, 2014 – 31st July, 2014) – Primarily involved in sales and execution of solar projects in Mumbai and nearby areas.

  
All other terms and conditions of Statement of Additional Information remain unchanged. This addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information of SBI Mutual Fund as amended from time to time.  
Place: Mumbai  
Date: June 11, 2021  
For SBI Funds Management Private Limited  
Sd/-  
Vinay M. Tonse  
Managing Director & CEO

**Assel Management Company: SBI Funds Management Private Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65990MH1992PT0065289) Trustee: SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U65991MH2003PT0138406) Sponsor: State Bank of India Regd. Office: 2nd Floor, Cresscanto C - 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Tel: 91-22-621793000 - Fax: 91-22-67425687 - E-mail: [partnerforlife@sbi.com](mailto:partnerforlife@sbi.com) - [www.sbi.com](http://www.sbi.com)**  
**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**  
SBIFM/2021/JUN/07

**NOTICE**  
**NOTICE COM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION OF SBI MUTUAL FUND**  
**Appointment of Key Personnel of SBI Funds Management Private Limited**  
Notice is hereby given that Mr. Rohan Pillai, Fixed Income Dealer, has been appointed as key personnel of SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) (based at Corporate Office). The details of Mr. Rohan Pillai are as follows:  

Name / Designation	Age	Qualification	Brief Experience
Mr. Rohan Pillai (Fixed Income Dealer)	29 years	• Master of Science in Finance • Bachelor of Engineering	Mr. Rohan Pillai joined SBIFMPL in June 2021. He has over 4 years of experience in finance and service sector. Prior to joining SBIFMPL, he was previously associated with following entities. ICICI Bank Limited (24th May 2017 – 28th May, 2021) – Primarily involved in credit analysis of various NCD proposals. Jain Irrigation Systems Limited (1st February, 2014 – 31st July, 2014) – Primarily involved in sales and execution of solar projects in Mumbai and nearby areas.

  
All other terms and conditions of Statement of Additional Information remain unchanged. This addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information of SBI Mutual Fund as amended from time to time.  
Place: Mumbai  
Date: June 11, 2021  
For SBI Funds Management Private Limited  
Sd/-  
Vinay M. Tonse  
Managing Director & CEO

**Assel Management Company: SBI Funds Management Private Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65990MH1992PT0065289) Trustee: SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U65991MH2003PT0138406) Sponsor: State Bank of India Regd. Office: 2nd Floor, Cresscanto C - 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Tel: 91-22-621793000 - Fax: 91-22-67425687 - E-mail: [partnerforlife@sbi.com](mailto:partnerforlife@sbi.com) - [www.sbi.com](http://www.sbi.com)**  
**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**  
SBIFM/2021/JUN/07

**Assel Management Company: SBI Funds Management Private Limited (A Joint Venture between SBI & AMUNDI) (CIN: U65990MH1992PT0065289) Trustee: SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd. (CIN: U65991MH2003PT0138406) Sponsor: State Bank of India Regd. Office: 2nd Floor, Cresscanto C - 38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Tel: 91-22-621793000 - Fax: 91-22-67425687 - E-mail: [partnerforlife@sbi.com](mailto:partnerforlife@sbi.com) - [www.sbi.com](http://www.sbi.com)**  
**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**  
SBIFM/2021/JUN/07

**KIRAN VYAPAR LIMITED**  
Regd. Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata-700022  
Phone: (033) 2223-0016/18, Fax: (033) 2223 1569, Email: [info@kvgroup.com](mailto:info@kvgroup.com), [www.kvgroup.com](mailto:www.kvgroup.com), CIN No. L51909WB1995PLC071730  
**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021**  
(Rs. in Lacs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020		
1	Total Income from operations	4,608.36	1,852.95	187.20	10,356.71	1,317.78	6,135.90	3,157.67	661.43	14,092.30	5,956.41
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and for Extraordinary Items)	3,954.10	1,559.46	(209.02)	8,872.61	1,682.35	4,746.78	2,047.77	(1,247.74)	10,847.79	(86.89)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and for Extraordinary Items)	4,665.41	1,559.46	(209.02)	9,583.92	1,682.35	5,458.07	2,047.77	(1,247.74)	11,559.10	(86.89)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and for Extraordinary Items)	4,140.07	1,262.08	(540.78)	8,103.73	954.68	4,849.40	1,586.44	(1,508.18)	9,754.66	(796.66)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	5,737.98	1,937.16	(3,126.42)	12,285.43	(2,291.97)	9,493.19	7,093.48	(10,448.87)	27,666.14	(11,765.62)
6	Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	2,728.42	2,728.42	2,728.42	2,728.42	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18
7	Earnings per share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operation)										
	Basic	15.17	4.63	(1.98)	29.70	3.50	17.97	5.88	(5.59)	36.15	(2.95)
	Diluted	15.17	4.63	(1.98)	29.70	3.50	17.97	5.88	(5.59)	36.15	(2.95)

**Notes:**  
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Kiran Vyapar Limited ("the Company") at their respective meetings held on 11 June 2021.  
2. The financial results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).  
3. The above form is an extract of the detailed format of financial result for the quarter and year ended 31 March 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial result for the quarter and year ended 31 March 2021 are available on the Stock Exchanges websites viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the website of the Company viz. [www.kvgroup.com](http://www.kvgroup.com).  
For and on behalf of the Board  
For Kiran Vyapar Limited  
Sd/-  
L. N. Bangur  
Chairman  
DIN: 00012617

**KIRAN VYAPAR LIMITED**  
Regd. Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata-700022  
Phone: (033) 2223-0016/18, Fax: (033) 2223 1569, Email: [info@kvgroup.com](mailto:info@kvgroup.com), [www.kvgroup.com](mailto:www.kvgroup.com), CIN No. L51909WB1995PLC071730  
**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021**  
(Rs. in Lacs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020	Quarter Ended 31 March 2021	Quarter Ended 31 March 2020		
1	Total Income from operations	4,608.36	1,852.95	187.20	10,356.71	1,317.78	6,135.90	3,157.67	661.43	14,092.30	5,956.41
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and for Extraordinary Items)	3,954.10	1,559.46	(209.02)	8,872.61	1,682.35	4,746.78	2,047.77	(1,247.74)	10,847.79	(86.89)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and for Extraordinary Items)	4,665.41	1,559.46	(209.02)	9,583.92	1,682.35	5,458.07	2,047.77	(1,247.74)	11,559.10	(86.89)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and for Extraordinary Items)	4,140.07	1,262.08	(540.78)	8,103.73	954.68	4,849.40	1,586.44	(1,508.18)	9,754.66	(796.66)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	5,737.98	1,937.16	(3,126.42)	12,285.43	(2,291.97)	9,493.19	7,093.48	(10,448.87)	27,666.14	(11,765.62)
6	Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	2,728.42	2,728.42	2,728.42	2,728.42	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18	2,698.18
7	Earnings per share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operation)										
	Basic	15.17	4.63	(1.98)	29.70	3.50	17.97	5.88	(5.59)	36.15	(2.95)
	Diluted	15.17	4.63	(1.98)	29.70	3.50	17.97	5.88	(5.59)		

**PUBLIC NOTICE**  
 Notice is hereby given that Mr. Nandlal Chhabra the sole owner of Mr. Sunil Chhabra & Ms. Sona Chhabra of Flat No. A-5, 3rd Floor, Santaravali, Mumbai 400 045, died intestate on 03/02/2021 and his legal heirs are Mr. Sunil Chhabra has requested the society to transfer the shares of the deceased to his heirs.  
 We hereby invite claims of the heirs of the deceased or claimants/creditors or objects to the transfer of the said shares and interest of the deceased members in the capital property of the society within a period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice with copies of such documents and other proofs in support of their claim. The meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the transfer of the shares and interest of the deceased members in the capital property of the society to his heirs and to the said shares and interest of the deceased members in the capital property of the society as provided under the bye laws of the society.  
 Date: 01.06.2021  
 Office No. 2, Ground Floor, SHANTI NUSHS CHS LTD. BLDG. NO. 1 PATEL ESTATE, PANDRA KANDOLIVE, MUMBAI 400 101  
 Cms: 9892276126/91151213981902415

**SURAJ PRODUCTS LIMITED**  
 CIN:L26942OR1991PL002885  
 Regd. Off: 11/1, Barapali, Keeramam Road, Sindurghar, Gadhara-770017  
**INTIMATION FOR RESCHEDULING OF BOARD MEETING**  
 This has reference to our notice dated June 03, 2021, informing that a meeting of the Board of Directors of Suraj Products Limited (The Company) to be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021 has been rescheduled and the said meeting will now be held on Wednesday, June 23, 2021.  
 The meeting is rescheduled due to professional constraints of our Stationary Auditor M/s BGS & Co.  
 Date: 11.06.2021  
 By order of the Board  
 Place: Barapali  
 Anu Khatri  
 Company Secretary

**BLUE CHIP INDIA LIMITED**  
 Regd. Office: 110 Prince Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 E-mail: bluechipindia@gmail.com  
 Ph: 91-33-4002280, Fax: 91-33-2237953  
 CIN:L55901WB1992PL006597  
**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021. The Notice is also available on the Company's website at www.bluechipindia.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For Blue Chip India Limited  
 Sd/- Anumita Mishra Thakur  
 Place: Kolkata  
 Compliance Officer

**CHL LIMITED**  
 CIN: L55101DL1979PL006498  
 Regd. Office: Hotel The Surya, New Friends Colony, New Delhi 110025  
 Tel: 91-11-26835700, 47890801 Fax: 26863288  
 E-mail: chl@chl.co.in  
**NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 25th June, 2021 at 10.00 AM at Hotel The Surya, New Friends Colony, New Delhi 110 025, inter alia, to consider and elect/ re-elect Chairman of the Board Meeting and approve the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for the Fourth Quarter and Year ended on 31st March, 2021, approve the Annual Report (Standalone and Consolidated) for the Financial Year 2020-21 and draft Board's report, for the date of 42nd Annual General Meeting and the date for closure of the Register of Members/Out-of-date for the purpose of Annual General Meeting. The same notice may be accessed on the Company's website at www.chl.co.in and website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.  
 By Order of the Board  
 For CHL Limited  
 Sd/-  
 G. J. Varadgar  
 Company Secretary  
 Place: New Delhi  
 Date: 12th June, 2021

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**  
 Name of Work:  
 "Servicing and Testing" of Vacuum Circuit Breakers (VCBs), Air Circuit Breakers (ACBs), Relays, LT/RT Panels, Capacitor Panels and Transformers of capacities 630kV KVA installed at Pragati Tower Building, Plot No. C-3, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051.  
 Cost of Tender and EMD: 22.06.2021 at 11:00 Hrs. For CHL Limited  
 Tender cost: Rs. 1,18,000/- Inclusive of GST EMD: Rs. 6,000/-  
 Last date & time for submission of sealed tender: 22.06.2021 at 15:00 Hrs.  
 Tender documents may be downloaded from bank's website: https://www.bankbids.com up to 17:00 Hrs on 21.06.2021  
 Chief Manager

**PUBLIC NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021. The Notice is also available on the Company's website at www.bluechipindia.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For Blue Chip India Limited  
 Sd/- Anumita Mishra Thakur  
 Place: Kolkata  
 Compliance Officer

**PUBLIC NOTICE**  
 Structure bearing Redevelopment of vested property on Plot No. 34 bearing C.S. No. 592 of Matunga Division of Sewer Wadada Estate, bearing Ward - C-21, situated at the Manikrao Lotkar Marg, King Circle, Matunga, Mumbai 400019, Property known as "Dewan Villa" within the Redevelopment and Sub-division of Mumbai City. The property belongs to Owner M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd. who have the authority to redevelop the above mentioned property. The following are the list of tenants/ occupants of the structure referred herein above.

Sr. No.	Name of Tenants	Name of Occupants	Floor	Room/ Shop No.
<b>GROUND FLOOR</b>				
1	Mr.Pramodkumar Gupta	Mr.Pramodkumar Gupta	Gr.	Tenement at left side (from front side)
2	Mr.Pravinikumar Gupta	Mr.Pravinikumar Gupta	Gr.	Tenement at right side (from front side)
<b>FIRST FLOOR</b>				
3	M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd	M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.	1st	Tenement at left side (from rear side)
4	M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd	M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.	1st	Tenement at right side (from rear side)
<b>SECOND FLOOR</b>				
5	Mr.Rameshkumar Gupta	Mr.Rameshkumar Gupta	2nd	Tenement at left side (from rear side)
6	Mr.Vinodkumar Gupta & Mr. Deepak Gupta	Mr.Vinodkumar Gupta & Mr. Deepak Gupta	2nd	Tenement at right side (from rear side)
<b>THIRD FLOOR</b>				
7	Parshwa Metals Pvt. Ltd.	Kept in abeyance	3rd	Tenement at 3rd Floor

if anyone has objection for Redevelopment of the above mentioned plot, the same may be made known to us at the above mentioned address within 15 days of the publication of this notice.  
 Owner M/s. Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.  
 Address : Naharsing Industrial Park, Ram Mandir Road, Goregaon (W), Mumbai 400104

**CMS FINVEST LIMITED**  
 Regd. Office: 110 Prince Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 E-mail: cmsfinvest@gmail.com  
 Ph: 91-33-4002280, Fax: 91-33-2237953  
 CIN:L61720WB1992PL005278  
**NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.  
 The Notice is also available on the Company's website at www.cmsfinvest.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For CMS Finvest Limited  
 Sd/- Srinivas Kumar Jha  
 Place: Kolkata  
 DIN: 01068562

**ATN INTERNATIONAL LIMITED**  
 Regd. Office: 110 Prince Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 E-mail: atninternational.com  
 Ph: 91-33-4002280, Fax: 91-33-2237953  
 CIN:L65901WB1992PL008793  
**NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.  
 The Notice is also available on the Company's website at www.atninternational.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For ATN International Limited  
 Sd/- Sanjay Kumar Jain  
 Place: Kolkata  
 DIN: 01742323

**PUBLIC NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.  
 The Notice is also available on the Company's website at www.siliconvalleyinfotech.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For Silicon Valley Infotech  
 Sd/- Santosh Kumar Jangir  
 Place: Kolkata  
 DIN: 010714235

**PUBLIC NOTICE**  
 It is hereby published for the knowledge of all citizens that accused Abdul Majid Matullia Malik, Age 65 has died in the Police Custody of Malvani Police Station, Malad (west), Mumbai, on 10 March, 2021. Hble Collector and District Magistrate, Mumbai Suburban District has instructed to the Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Mumbai Western Suburban to enquire into the matter of above custodial death.  
 Accordingly the enquiry into the matter of above custodial death will be carried out in the court of Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Mumbai Suburban District at Administrative Building, 9th floor Government Colony, Bandra (East), Mumbai 400051 on 15 June, 2021 at 11:00 a.m.  
 If anyone wants to submit his statement or any proof regarding the custodial death of the above accused person, he/she can attend personally and submit his/her statement and proof before this court on the above date and within 15 days from the publishing of this notice on the day and timing of official work.

**KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED**  
 Regd. Office: 27BKC, C-17, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051.  
 BO: 44, Admas Plaza, CST Road, Kolverly Village, Santacruz (E), Mumbai-400098.  
**POSSIBILITY NOTICE (FOR IMMovable PROPERTY)**  
 Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.  
 The Notice is also available on the Company's website at www.kotakmbank.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For Kotak Mahindra Bank Limited  
 Sd/- Anand Kumar Jha  
 Place: Kolkata  
 DIN: 01068562

**CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED**  
 CIN: L26224TN1995PL000318  
 Registered Office: "Pam House", No.43, Moore Street, Chennai - 600 011  
 Tel: +91-44-30006161, Fax: +91-44-30006149  
 Email: investorservices@cumuni.mumppa.com  
**NOTICE TO MEMBERS**  
 Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs.  
 As per Section 124(1) of the Companies Act, 2013 (the Act) and the above mentioned Rules, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. In respect of the Final Dividend declared for the financial year 2013-14, the due date for transfer of shares as per the Act / Rules is 7th September, 2021. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are required to be transferred to IEPF Authority under the said Rules at their latest available address.  
 The Company has updated full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website https://www.cumuni.mumppa.com for verification by the concerned shareholders. Shareholders may note that both unclaimed dividend and the shares to be transferred to the IEPF Authority after all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from the IEPF Authority after following the due procedure prescribed in the Rules.  
 In case the Company does not receive the requisite documents by 28th August, 2021 or such other extended date, the Company shall, with a view to comply with the requirements of the said Rules, transfer the shares to the IEPF Authority as per the provisions stipulated therein without any further notice.  
 Shareholders having any query in this regard, may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company as mentioned herein below.

**SILICON VALLEY INFOTECH LIMITED**  
 Regd. Office: 110 Prince Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 E-mail: siliconvalleyinfotech.net, silvaly@gmail.com  
 Ph: 91-33-4002280, Fax: 91-33-2237953  
 CIN:L55901WB1992PL061372  
**NOTICE**  
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, June 12, 2021, inter alia, to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.  
 The Notice is also available on the Company's website at www.siliconvalleyinfotech.com and on the Stock Exchange website at www.secdisc.com.  
 Further, in accordance with the Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting.  
 For Silicon Valley Infotech  
 Sd/- Santosh Kumar Jangir  
 Place: Kolkata  
 DIN: 010714235

**NOTICE**  
 Notice is hereby given that the share certificate(s) for 80 equity shares of ₹100 each of Garware Technical Fibres Limited under Folio No. 00A0201 Certified 120 & 10081 and 10082, registered with the Registrar of Companies, Mumbai-400028, are lost and the same are hereby declared void. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company.  
 Name of the Shareholder: Anand Kumar Jha  
 Harihar Parekh jointly with Kusum Anantaram Patil  
 Date: 10-06-2021  
 Place: Mumbai

**NOTICE**  
 Notice is hereby given that the share certificate(s) for 80 equity shares of ₹100 each of Garware Technical Fibres Limited under Folio No. 00A0201 Certified 120 & 10081 and 10082, registered with the Registrar of Companies, Mumbai-400028, are lost and the same are hereby declared void. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company.  
 Name of the Shareholder: Anand Kumar Jha  
 Harihar Parekh jointly with Kusum Anantaram Patil  
 Date: 10-06-2021  
 Place: Mumbai

**NOTICE**  
 Notice is hereby given that the share certificate(s) for 80 equity shares of ₹100 each of Garware Technical Fibres Limited under Folio No. 00A0201 Certified 120 & 10081 and 10082, registered with the Registrar of Companies, Mumbai-400028, are lost and the same are hereby declared void. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company. The said shares are held in the name of Mr. Anand Kumar Jha, who is the sole shareholder of the Company.  
 Name of the Shareholder: Anand Kumar Jha  
 Harihar Parekh jointly with Kusum Anantaram Patil  
 Date: 10-06-2021  
 Place: Mumbai

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL DIVISION BENCH AT CHENNAI**  
 CA/807/CA/2020 CA/858/CA/2020  
 In the matter of the Companies Act, 2013  
 In the matter of Sections 230 to 232 and Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013  
 And  
 In the matter of Composite Scheme of Arrangement between TIL Nutraceuticals Private Limited and Tablets (India) Limited and their respective shareholders  
 M/s. Tablets India Limited (CIN: L27101TN1999PL0002883), a Company incorporated under the Companies Act, 1953, having its Registered Office at Jyeshtha Centre, R A Building, IV Floor, Old No. 19, New No. 72, Marshalls Road, Chennai - 600008  
 ...Applicant/Transferee Company  
**FORM NO. CAA 2**  
 [Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016]

**Carborundum Universal Limited**  
 "Pam House", 43, Moore Street, Chennai 600 011.  
 Tel: +91-44-30006161  
 Fax: +91-44-30006149  
 Email: investorservices@cumuni.mumppa.com  
 Contact Person: Mr. Arjun Raj  
**KFN Technicians Private Limited**  
 Unit: Carborundum Universal Limited  
 Sellemur Town, Plot 31 & 32, Financial District, Namakkal, Tamil Nadu - 625 002  
 Hyderabad - 500 032, Telangana  
 Tel: 0417616 1616 Fax: 041-242 0414  
 Toll Free No: 1800-3904-011  
 Email: enquire@kfnltd.com  
 Contact Person: Mr. Rajkumar Kale  
**For Carborundum Universal Limited**  
 Rekha Surendhran  
 Company Secretary

**PUBLIC NOTICE**  
 My client Mr. Karan Bhasker Kumar intends to purchase Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated on the Fourth Floor, in Building No. A-6, of Saket Co-op. Hsg. Soc., in the complex known as "Saket Complex", being lying and situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), Survey No. 3, Hissa No.1(pt), Survey No. 38, Hissa No. 2, (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area), situated in 1100, bearing Survey No. 38, Hissa No. 3 (pt), 3 and Survey No. 40 of Village Mayajwala, Taluka and District Thane, situated at Mayajwala. The said shares are held in the name of Mr. Devendra Vinayak Dalvi. The said Mr. Devendra Vinayak Dalvi has informed my client that he has purchased the said Flat No. 424, 3rd Floor, S-3 (Carpet Area





